



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जुलाई, 2023

आषाढ़ 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या 267/27-1-2023-50-85

लखनऊ, 13 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") नियमावली, 1990 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क")

(षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") संक्षिप्त नाम और (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") नियमावली, 1990 में, नियम-5 का नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उपनियम (तीन) के स्थान पर स्तम्भ-दो में संशोधन दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

विद्यमान उपनियम

5 (तीन) मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक-स्तर-दो :-

यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण

स्तम्भ-दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

5 (तीन) मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक-स्तर-दो :-

यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण

स्तम्भ—एक**विद्यमान उपनियम**

अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पच्चीस वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;

स्तम्भ—दो**एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

अभियन्ताओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को बाईस वर्ष की सेवा (जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा भी सम्मिलित हो) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा;

आज्ञा से  
अनिल गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 267 /XXVII-1-2023-50/85, dated, July 13, 2023:

No. 267/XXVII-1-2023-50-85

*Dated Lucknow, July 13, 2023*

IN exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990:

**THE UTTAR PRADESH SERVICE OF ENGINEERS (IRRIGATION DEPARTMENT)  
(GROUP "A") (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2023**

Short title and Commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department)(Group "A") (Sixth Amendment) Rules, 2023.
	(2) They shall come into force at once.
Amendment of Rule 5	2. In the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990, in rule 5, for existing sub-rule (iii) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be <i>substituted</i> , namely:-

COLUMN-I*Existing sub-rule*

**5 (iii) Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level II** - By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed **twenty-five** years' service (including at least one year's service as Superintending Engineer) on the first day of the year of recruitment;

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*

**5 (iii) Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level II** - By promotion from amongst the substantively appointed Superintending Engineers in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed **twenty-two** years' service (including at least one year's service as Superintending Engineer) on the first day of the year of recruitment;

By order,  
ANIL GARG,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 442 राजपत्र-2023-(1439)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० सिंचाई एवं जल संसाधन-2023-(1440)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।